



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032025-262110
CG-DL-E-30032025-262110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1443]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947

No. 1443]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

का.आ. 1461(अ).—मेसर्स वेलस्पन लिविंग लिमिटेड, जिसका पंजीकृत पता वेलस्पन सिटी, गांव: वरसामेड़ी, तालुका: अंजार - 370110, जिला : कच्छ, गुजरात, भारत में है, गुजरात में थोक उपभोक्ता के रूप में मेसर्स वेलस्पन लिविंग लिमिटेड को 70 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली में शामिल समर्पित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत प्राधिकरण के लिए आवेदन किया है।

जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 25-17/57/2024-पीजी दिनांक 13.06.2024 के माध्यम से गुजरात में थोक उपभोक्ता के रूप में मेसर्स वेलस्पन लिविंग लिमिटेड को 70 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली में शामिल समर्पित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 (1) के तहत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स वेलस्पन लिविंग लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 06.12.2024, लोकतेज (हिंदी में) दिनांक 06.12.2024, कच्छमित्र (गुजराती में) दिनांक 06.12.2024 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 21.12.2024 में ट्रांसमिशन योजना के लिए नोटिस प्रकाशित किया है, ताकि जनता प्रकाशन की तिथि से दो महीने के भीतर प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर अवलोकन/अभ्यावेदन कर सके। तत्पश्चात, मेसर्स वेलस्पन लिविंग लिमिटेड ने 06.03.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिसमें घोषणा की गई है कि समाचार पत्र/ भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर कोई टिप्पणी/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत राजस्थान में गुजरात में थोक उपभोक्ता के रूप में मेसर्स वेलस्पन लिविंग लिमिटेड को 70 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डेडिकेटेड शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- वेलस्पन लिविंग लिमिटेड स्विचयार्ड (वेलस्पन सिटी, ग्राम वर्सामेडी, तालुका अंजार, जिला कच्छ, गुजरात में स्थित) - भच्चाऊ (आईएसटीएस सबस्टेशन) 220 केवी डी/सी लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत शामिल ट्रांसमिशन लाइन गुजरात के निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उनके ऊपर, चारों ओर और उनके बीच से गुजरेगी :

क्र	गांव का नाम	तालुका	ज़िला
1	भीमासर, अजापार, वर्सामेडी, खारा, पसवारिया, तापर, पासुदा, मीठा पसवारिया, लाखापार, मोडवदर	अंजार	कच्छ

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत, मेसर्स वेलस्पन लिविंग लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड लाइन बिछाने के लिए सभी शक्तियां प्रदान करता है, जो कि टेलीग्राफ प्राधिकरण को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या स्थापित या अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के प्रयोजनों के लिए टेलीग्राफ लाइनों और पोस्टों को लगाने के संबंध में है, जो उपर्युक्त लाइन लगाने के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है, अर्थात:

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए दिया गया है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन के निर्माण से पहले संबंधित प्राधिकारियों अर्थात स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों आदि की सहमति लेनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत पारेषण, प्रचालन एवं रखरखाव, खुली पहुंच आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक को केन्द्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात लाइन का संचालन करना होगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की आवश्यकता के अनुपालन के अधीन है।
- मेसर्स वेलस्पन लिविंग लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय नागरिक उड्डयन, रक्षा आदि जैसे संबंधित प्राधिकरणों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने के बाद केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा।
- यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में याचिका संख्या 838/2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा.सं. 25-16/22/2025-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 26th March, 2025

S.O. 1461(E).—Whereas M/s Welspun Living Limited, having its registered address at Welspun City, Village Versamedi, Anjar - 370110, Dist : Kachchh, Gujarat, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for Transmission system for providing connectivity to M/s Welspun Living Limited for 70 MW as Bulk Consumer in Gujarat.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/57/2024-PG dated 13.06.2024, had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for installation of the dedicated overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s Welspun Living Limited for 70 MW as Bulk Consumer in Gujarat.

M/s Welspun Living Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers Times of India (in English) dated 06.12.2024, Loktej (in Hindi) dated 06.12.2024, Kutchmitra (in Gujarati) dated 06.12.2024 and in Weekly Gazette of India dated 21.12.2024 for the public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Welspun Living Limited has submitted an affidavit dated 06.03.2025 declaring that no observation/representation was received within two months from the date of Publication in the official gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for installation of the dedicated overhead transmission line included in the Transmission system for providing connectivity to M/s Welspun Living Limited for 70 MW as Bulk Consumer in Gujarat. The following overhead line is covered under this scheme:

- Welspun Living Ltd. Switchyard (located at Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, District Kachchh, Gujarat)-Bhachau (ISTS S/s) 220kV D/c line

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Gujarat:

Sr.No.	Name of Village	Taluka	Distrit
1	Bhimasar, Ajapar, Versamedi, Khara Pasawariya, Tapar, Pasuda, Mitha Pasawariya, Lakhapar, Modvadar	Anjar	Kachchh

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Welspun Living Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above-mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- M/s Welspun Living Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F.No. 25-16/22/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)